

# Est

## Chapter 2

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

אֶת־ को H0853	זָכַר उसने-याद-किया H2142	אֶחָשָׁרוּשׁ अहश्वरीश-का H0325	הַמֶּלֶךְ राजा H4428	חַמַּת क्रोध H2534	כָּשָׁה जब-शांत-हुआ H7918	הָאֵלֶּה ये H0428	הַדְּבָרִים बातें H1697	אֶחָד इन-बातों-के-बाद H1697	1
		עָלֶיהָ: उसके-विरुद्ध H1504	נָגַד ठहराया-गया-था H1504	וְאֶשְׁרָ- जो H0853	וְאֵת और H0853	עָשָׂתָה उसने-किया-था H0853	וְאֶשְׁרָ- जो H0853	וְאֵת और H0853	וְשָׂתִי वशती H2060

आगे चलकर महाराजा क्षयर्य का क्रोध शांत हुआ सो उसे वशती और वशती के कार्य याद आने लगे। वशती के बारे में उसने जो आदेश दिया था, वह भी उसे याद आया।

טובות सुन्दर H1330	בתולות कुंवारी H1330	נערות युवतियाँ H5291	למלך राजा-के-लिए H4428	יבקשו ढूंढी-जाएँ H1245	משרתיו जो-उसकी-सेवा-करते-थे H8334	המלך राजा-के H4428	נערי- सेवकों-ने H5288	ויאמרו और-कहा H0559	2
								מראה: देखने-में H4758	

इसके बाद राजा के निजी सेवकों ने उसे एक सुझाव दी। उन्होंने कहा, “राजा के लिए सुन्दर कुंवारी कन्याओं की खोज करो।

נערה- युवतियों H5291	כל- सब H3605	את- को H0853	ויקבצו ताकि-वे-इकट्ठा-करें H6908	מלכותו अपने-राज्य-के H4438	מדינות प्रान्तों-में H4082	בכל- सब H3605	פקידים अधिकारी H6496	המלך राजा H4428	ויפגרו और-ठहराए H4428	3
הגא हेगै H1896	יר देखरेख H3027	אל- की H0413	הנשים स्त्रियों-के H0802	בית घर H0413	אל- में H1002	הבירה राजधानी-में H7800	שושן शूशन H0413	אל- को H4758	טובת सुन्दर H1330	בתולה कुंवारी H1330
			תמרוקיהן: सौन्दर्य-प्रसाधन H8562	ונתון और-दिया-जाए-उन्हें H5414	הנשים स्त्रियों-का H0802	שמר रखवाला H8104	המלך राजा-का H4428	סריס खोजा H5631		

राजा को अपने राज्य के हर प्रांत में एक मुखिया का चुनाव करना चाहिए। फिर उन मुखियाओं को चाहिए कि वे हर कुंवारी कन्या को शूशन के राजधानी नगर में लेकर आयें। उन कन्याओं को राजा की स्त्रियों के समूह में रखा जाये। वे हेगे की देख-रेख में रखी जायेंगी। हेगे महाराजा का खोजा था, वह स्त्रियों का प्रबंधक था। फिर उन्हें सौन्दर्य प्रसाधन दिये जायें।

הדבר यह-बात H1697	וייטב और-अच्छा-लगा H3190	ושתי वशती H2060	תחת की-जगह H8478	המלך रानी-बने H4428	המלך राजा-की H4428	בעיני दृष्टि-में H3190	תיטב अच्छी-लगे H3190	אשר जो H5291	והנערה और-जो-युवती H5291	4
				ס स	כן: ऐसा-ही	ויעש और-उसने-किया	המלך राजा-की H4428	בעיני दृष्टि-में		

फिर वह लड़की जो राजा को भाये, वशती के स्थान पर राजा की नई महारानी बना दी जाये।” राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। सो उसने इसे स्वीकार कर लिया।



	אֶת- को	וַיִּבְחַל तो-तुरन्त	לְפָנָיו उसकी	קָרָה कृपा	וַתִּשָּׂא और-उसने-प्राप्त-किया	בְּעֵינָיו उसकी-दृष्टि-में	הַנְּעִרָה वह-युवती	וַתֵּשֶׁב और-उसे-भाई	
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0926</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H3190</a>	
	הַרְאִיּוֹת चुर्नीदा	הַנְּעִרָתָּ दासियाँ	שִׁבְעַת सात	וְאֵת और	לָהּ उसे	לָתֵת उसने-दिया	מִנּוּחָהּ उसका-भत्ता	וְאֵת- और-इसके-अलावा	תְּמַרְוִיקָהּ सौन्दर्य-प्रसाधन-उसके
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H4490</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8562</a>
בֵּית घर	לְטוֹב सबसे-अच्छी-जगह-में	נְעִרְוֶיהָ उसकी-दासियों-को	וְאֵת- और	וַיִּשְׂחָה और-उसने-उसे-हटाया	הַמֶּלֶךְ राजा-के	מִבְּיַת महल-से	לָהּ उसे	לָתֵת- जो-दी-गई-थीं	
		<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4428</a>			<a href="#">H5414</a>	

הַנְּשִׂיִם:  
स्त्रियों-के  
[H0802](#)

हेगे को एस्तेर बहुत अच्छी लगी। वह उसकी कृपा पात्र बन गयी। सो हेगे ने एस्तेर को शीघ्र ही सौन्दर्य उपचार दिये और उसे विशेष भोजन प्रदान किया। हेगे ने राजा के महल से सात दासियाँ चुर्नी और उन्हें एस्तेर को दे दिया। और इसके बाद हेगे ने एस्तेर और उसकी सातों दासियों को जहाँ राजघराने की स्त्रियाँ रहा करती थी, वहाँ एक उत्तम स्थान में भेज दिया।

עָלְיָהּ उसे	צָוָה आज्ञा-दी-थी	מֵרַדְכָּי मर्दके-ने	כִּי क्योंकि	מִוְלֵדָתָהּ परिवार-को	וְאֵת- या	עַמָּהּ अपने-लोगों	אֶת- को	אֶסְתֵּר एस्तेर-ने	הַנְּיֻרָה बताया-था	לֹא- नहीं
	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H4782</a>		<a href="#">H4138</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H3808</a>
								תַּנְיָד: बताना	לֹא- नहीं	אֲשֶׁר कि
								<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H3808</a>	

एस्तेर ने यह बात किसी को नहीं बताई कि वह एक यहूदी है। क्योंकि मर्दके ने उसे मना कर दिया था, इसलिए उसने अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।

אֶת- को	לְרַעַת जानने-के-लिए	הַנְּשִׂיִם —	בֵּית- —	חֲצָר —	לְפָנָיו —	מִתְחַלְלָהּ —	מֵרַדְכָּי —	וַיּוֹם —	יוֹם —	וּבְכָל- —
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H0802</a>			<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H4782</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>
								וּמָה- और-क्या	אֶסְתֵּר एस्तेर-की	שָׁלוֹם कुशलता
								<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H7965</a>

मोर्दके जहाँ रनवास की स्त्रियाँ रहा करती थी, वहाँ आसपास और आगे पीछे घूमा करता था। वह यह पता लगाना चाहता था कि एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या कुछ घट रहा है इसीलिये वह ऐसा करता था।

מִקֶּץ के-बाद	אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ अहश्वेरोश	הַמֶּלֶךְ राजा	אֶל- के-पास	וּלְבוֹא जाने-की	וְנַעֲרָה और-प्रत्येक-युवती-की	נַעֲרָה प्रत्येक-युवती-की	תָּר बारी	וּבְתָרְיָהּ और-जब-आई	
<a href="#">H7093</a>	<a href="#">H0325</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H8447</a>	<a href="#">H5060</a>	
כֵּן ऐसे	כִּי क्योंकि	חָדָשׁ महीने-की-तैयारी	עֲשָׂר और-दो	שָׁנִים बारह	הַנְּשִׂיִם स्त्रियों-के-लिए	כְּרַת व्यवस्था-के-अनुसार	לָהּ उसके	הַיּוֹת पूरे-हो-चुके-थे	
		<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H1881</a>		<a href="#">H1961</a>	
בְּבִשְׂמִים सुगंधित-द्रव्यों-से	חֲדָשִׁים महीने	וְשֵׁה और-छह	הַנָּזָר गन्धरस-के	בְּשֶׁמֶן तेल-से	חֲדָשִׁים महीने	שָׁחָה छह	מְרוֹקִיָּהּ उनकी-तैयारी-के	יְמֵי दिन	יְמֵי पूरे-होते-थे
<a href="#">H1314</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H4753</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H4795</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H4390</a>
							הַנְּשִׂיִם: स्त्रियों-के-लिए	וּבְתַמְרוֹקָהּ और-सौन्दर्य-प्रसाधनों-से	
							<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H8562</a>	

इससे पहले कि राजा क्षयर्य के पास ले जाने के लिये किसी लड़की की बारी आती, उसे यह सब करना पड़ता था। बारह महीने तक उसे सौन्दर्य उपचार करना पड़ता था यानी छः महीने तक उसे गंधरस का तेल लगाया जाता और छः महीने तक सुगंधित द्रव्य और तरह-तरह की प्रसाधन सामग्रियों का उपयोग करना होता था।

13 תאמר וְבָרָה הַנְּעִרָה בָּאָה אֶל-הַמֶּלֶךְ אֵת כָּל-אֲשֶׁר בְּיָדָהּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ

वह-चाहती-थी जो-कुछ सब को राजा के-पास जाती-थी प्रत्येक-युवती और-इस-तरह-से

[H0559](#) [H3605](#) [H0853](#) [H4428](#) [H0413](#) [H0935](#) [H5291](#) [H2088](#)

וַיִּתֵּן לָהּ לְבָאָה עִמָּהּ מִבֵּית הַנְּשִׁים עַד-בֵּית הַמֶּלֶךְ : וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ

राजा-के महल तक स्त्रियों-के घर-से अपने-साथ ले-जाने-के-लिए उसे उसे-दिया-जाता-था

[H4428](#) [H5704](#) [H0802](#) [H0935](#) [H5414](#)

राजा के पास जाने के लिये उन्हें यह सब करना होता था। रनवास से जो कुछ वह चाहती, उसे दिया जाता।

14 וּבְעֶרְבַּיִם הָיָה בָּאָה וּבְבֹקֶר הָיָה שָׁבָה אֶל-בֵּית הַנְּשִׁים שְׁנֵי אֲלָ-יָד דֵּוֹר וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ

देखरेख में दूसरे स्त्रियों-के घर को लौटती-थी वह और-सुबह-को जाती-थी वह शाम-को

[H3027](#) [H0413](#) [H8145](#) [H0802](#) [H0413](#) [H7725](#) [H1931](#) [H1242](#) [H0935](#) [H1931](#) [H6153](#)

וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ

जब-तक राजा के-पास फिर जाती-थी-वह नहीं रखैलियों-को जो-रखता-था राजा-का खोजा शशगज-की

[H4428](#) [H0413](#) [H5750](#) [H0935](#) [H3808](#) [H6370](#) [H8104](#) [H4428](#) [H5631](#) [H8190](#)

וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ

नाम-से और-उसे-बुलाता राजा उससे प्रसन्न-होता कि-नहीं

[H8034](#) [H7121](#) [H4428](#)

शाम के समय वह लड़की राजा के महल में जाती और प्रातःकाल रनवास के किसी दूसरे क्षेत्र में वह लौट आती। फिर उसे शाशगज नाम के व्यक्ति की देखरेख में रख दिया जाता। शाशगज राजा का खोजा था जो राजा की रखैलों का अधिकारी था। यदि राजा उससे प्रसन्न न होता, तो वह लड़की फिर कभी राजा के पास न जाती। और यदि राजा उससे प्रसन्न होता तो उसे राजा नाम लेकर वापस बुलाता।

15 וּבְהַנְּדִיעַ תָּרַ-אֶסְתֵּר בַּת-אֲבִיתָיִל נָדָה מִרְדֵּכָיִם אֲשֶׁר לָקַח-לוֹ לְבָאָה אֶל-

[H0413](#) [H0935](#) [H1323](#) [H3947](#) [H4782](#) [H1730](#) [H0032](#) [H1323](#) [H0635](#) [H8447](#) [H5060](#)

וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ

राजा-का खोजा हेगे-ने सलाह-दी जो को सिवाय-उसके क्योंकि कुछ-नहीं

[H4428](#) [H5631](#) [H1896](#) [H0559](#) [H0853](#) [H1697](#) [H1245](#) [H3808](#) [H4428](#)

וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁर יִדְּעוּ

जो-उसे-देखते-थे सबकी दृष्टि-में कृपा प्राप्त-किया एस्तेर-ने और स्त्रियों-का रखवाला

[H7200](#) [H3605](#) [H2580](#) [H5375](#) [H0635](#) [H1961](#) [H0802](#) [H8104](#)

जब एस्तेर की राजा के पास जाने बारी आई तो उसने कुछ नहीं पूछा। उसने राजा के खोजे, हेगे से, जो रनवास का अधिकारी था, वह यह चाहा कि वह उसे बता दे कि वह अपने साथ क्या ले जाये एस्तेर वह लड़की थी जिसे मोर्दकै ने गोद ले लिया था और जो उसके चाचा अबीहैल की पुत्री थी। एस्तेर को जो भी देखता, उसे पंसद करता था।

16 וַתִּלְקַח אֶסְתֵּר אֶל-הַמֶּלֶךְ אֶחָשֶׁרוּשׁ אֶל-הַמֶּלֶךְ הַעֲשִׂירִי הַיּוֹם וַתִּלְקַח אֶת-מִלְכוּתוֹ מִבְּיַד הַמֶּלֶךְ הַיּוֹם

जो दसवें महीने-में राजकीय-उसके महल में अहश्शेरोश राजा के-पास एस्तेर तब-ली-गई

[H1931](#) [H6224](#) [H2320](#) [H4438](#) [H0413](#) [H0325](#) [H4428](#) [H0413](#) [H0635](#) [H3947](#)

וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ וְהָיָה לָהּ כַּאֲשֶׁר יִדְּעוּ

उसके-राज्य-के सातवें वर्ष-में तेबेत-का महीना-है

[H4438](#) [H7651](#) [H8141](#) [H2887](#) [H2320](#)

सो एस्तेर को महाराजा क्षयर्ष के महल में ले जाया गया। यह उस समय हुआ जब उसके राज्यकाल के सातवें वर्ष का तेबेत नाम का दसवाँ महीना चल रहा था।

וְהָקִדָּ	חָן	וְהִשָּׂא	הַנְּשִׁים	מְכֹל־	אֶסְתֵּר	אֶת-	הַמֶּלֶךְ	וַיֵּאָהֵב	
और-कृपा	अनुग्रह	और-उसने-प्राप्त-किया	दूसरी-स्त्रियों-से	सब-से-अधिक	एस्तेर-से	को	राजा-ने	और-प्रेम-किया	
	<a href="#">H2580</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0157</a>	

וַיְמַלִּכֶּהָ	בְּרִאשֹׁתָהּ	מַלְכוּת	כְּתֹר-	וַיִּשֶׂם	הַבְּתוּלֹת	מְכֹל־	לְפָנָיו	
और-उसे-रानी-बनाया	उसके-सिर-पर	राजकीय	मुकुट	तब-उसने-रखा	कुंवारियों-से	सब-से-अधिक	उसकी-दृष्टि-में	
		<a href="#">H4438</a>	<a href="#">H3804</a>		<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6440</a>	

וַשְׂתִּי :  
वशती  
[H2060](#)

וַיִּתֵּן :  
की-जगह  
[H8478](#)

राजा ने एस्तेर को किसी भी और लड़की से अधिक प्रेम किया और वह उसकी कृपा पायी। किसी भी दूसरी लड़की से अधिक, राजा को वह भा गयी। सो राजा क्षयरुष ने एस्तेर के सिर पर मुकुट पहना कर वशती के स्थान पर नयी महारानी बना लिया।

אֶסְתֵּר	מִשְׁתָּהּ	אֶת	וַעֲבָדָיו	שָׂרָיו	לְכֹל-	גְּדוֹל	מִשְׁתָּהּ	הַמֶּלֶךְ	וַיַּעַשׂ	
एस्तेर-का	भोज	को	और-सेवकों-के-लिए	हाकिमों	अपने-सब	बड़ा	भोज	राजा-ने	और-किया	
<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H4960</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H4960</a>	<a href="#">H4428</a>		18

וַיִּתֵּן :  
राजा-की  
[H4428](#)

כִּי :  
उदारता-के-अनुसार  
[H3027](#)

מִשְׁתָּהּ :  
उपहार  
[H4864](#)

וַיִּתֵּן :  
और-दिए  
[H5414](#)

עָשָׂה :  
उसने-घोषित-की  
[H4082](#)

לְמַדְיָנוֹת :  
प्राप्तों-में  
[H4082](#)

וַיִּחַטְּא :  
और-छुट्टी  
[H2010](#)

एस्तेर के लिये राजा ने एक बहुत बड़ी भोज दी। यह भोज उसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों और मुखियाओं के लिये थी। उसने सभी प्रातों में छुट्टी की घोषणा कर दी। उसने लोगों को उपहार भिजवाये क्योंकि वह बहुत उदार था।

וַיִּתֵּן :	הַמֶּלֶךְ :	בְּשַׁעַר-	יָשָׁב	וּמַרְדֳּכָי	שְׁנֵית	בְּתוּלוֹת	וּבְהַקְבִּץ	
राजा-के	फाटक-में	बैठा-था	और-मर्दकै	दूसरी-बार	कुंवारियाँ	और-जब-इकट्टी-हुई		
<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H4782</a>	<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H6908</a>		19

मोर्दकै उस समय राजद्वार के निकट ही बैठा था, जब दूसरी बार लड़कियों को इकट्ठा किया गया था।

מַרְדֳּכָי	עָלֶיהָ	צָנָה	כְּאִשָּׁר	עָמְדָה	וְאֶת-	מוֹלְדָתָהּ	מִגִּדְתָּ	אֶסְתֵּר	אֵין	
मर्दकै-ने	उसे	आज्ञा-दी-थी	जैसा	अपने-लोगों-को	और	अपना-परिवार	बताया-था	एस्तेर-ने	अभी-तक-नहीं	
<a href="#">H4782</a>		<a href="#">H6680</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4138</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H0369</a>	20

וְאֶת :  
स

אֶת :  
उसके

כְּאִשָּׁר :  
पालन-में

הִיתָה :  
वह-थी

כְּאִשָּׁר :  
जैसा

עָמְדָה :  
मानती-थी

אֶסְתֵּר :  
एस्तेर

מַרְדֳּכָי :  
मर्दकै-की

מִגִּדְתָּ :  
आज्ञा

אֶסְתֵּר :  
क्योंकि

एस्तेर ने अभी भी इस रहस्य को छुपाया हुआ था कि वह एक यहूदी थी। अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। वह मोर्दकै की आज्ञा का अब भी वैसे ही पालन करती थी, जैसे वह तब किया करती थी, जब वह मोर्दकै की देख-रेख में थी।

סְרִיסֵי	שְׁנֵי-	וַתְּרַשׁ	בְּגִתָּן	קָצַף	הַמֶּלֶךְ	בְּשַׁעַר-	יָשָׁב	וּמַרְדֳּכָי	הָהֵם	בִּימֵים
खोजे	दो	और-तेरेश	बिग्तान	क्रोधित-हुए	राजा-के	फाटक-में	बैठा-था	—	—	—
<a href="#">H5631</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8657</a>	<a href="#">H0904</a>	<a href="#">H7107</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H4782</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H3117</a>

אֶחָשְׁוֶרֶשׁ :  
अहश्वेश

בְּמֶלֶךְ :  
राजा-पर

יָד :  
हाथ

לְשַׁלַּח :  
डालना

וַיִּבְקְשׂוּ :  
और-चाहते-थे

הַסֶּף :  
दरवाजे-के

מִשְׁמַרְי :  
द्वारपाल

הַמֶּלֶךְ :  
राजा-के

उसी समय जब मोर्दकै राजद्वार के निकट बैठा करता था, यह घटना घटी: बिग्तान और तेरेश जो राजा के द्वार रक्षक अधिकारी थे, राजा से अप्रसन्न हो गये थे। उन्होंने राजा क्षयरुष की हत्या का षडयन्त्र रचना शुरू कर दिया।

בָּשֵׁם	לְמֶלֶךְ	אֶסְתֵּר	וַתֹּאמֶר	הַמֶּלֶכָּה	לְאֶסְתֵּר	וַיִּגַּד	לְמֶרְדֵּכָי	הַדָּבָר	וַיִּזְרַע	22
नाम-से	राजा-को	एस्तेर-ने	और-बताया	रानी	एस्तेर-को	और-उसने-बताया	मर्दकै-को	यह-बात	तब-ज्ञात-हुआ	
<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4436</a>	<a href="#">H0635</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H4782</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H3045</a>	

מֶרְדֵּכָי  
मर्दकै-के  
[H4782](#)

किन्तु मोर्दकै को उस षडयन्त्र का पता चल गया और उसने उसे महारानी एस्तेर को बता दिया। फिर महारानी एस्तेर ने उसे राजा से कह दिया। उसने राजा को यह भी बता दिया कि मोर्दकै ही वह व्यक्ति है, जिसने इस षडयन्त्र का पता चलाया है।

וַיִּכְתֹּב	עַץ	עַל-	שְׁנֵיהֶם	וַיִּתְּלוּ	וַיִּמְצָא	הַדָּבָר	וַיִּבְקֹשׁ	23
और-लिखा-गया	फाँसी	पर	वे-दोनों	और-टँगे-गए	और-पाया-गया	इस-बात-की	और-जब-जाँच-की-गई	
<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H6086</a>		<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8518</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H1245</a>	

פ : הַמֶּלֶךְ  
प राजा-की  
[H4428](#)

לְפָנָי  
उपस्थिति-में  
[H6440](#)

הַיָּמִים  
इतिहास  
[H3117](#)

דְּבָרָיו  
के  
[H1697](#)

בְּסֵפֶר  
पुस्तक-में

इसके बाद उस सूचना की जाँच की गयी और यह पता चला कि मोर्दकै की सूचना सही थी और उन दो पहरदारों को जिन्होंने राजा को मार डालने का षडयन्त्र बनाया था, एक खम्भे पर लटका दिया गया। राजा के सामने ही ये सभी बातें राजा के इतिहास की पुस्तक में लिख दी गयीं।